



QID : 201 - In the following question, select the related word from the given alternatives.

Chicken : Hen :: ? : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

मृग : मृगी :: ? : ?

Options:

- 1) Horse : Mare
घोड़ा : घोड़ी
- 2) Rabbit : Goose
खरगोश : बत्ख
- 3) Bull : Doe
बैल : हिरणी
- 4) Boar : Foal
शुकर : घोड़े का बछड़ा

Correct Answer: Horse : Mare
घोड़ा : घोड़ी

Candidate Answer: Horse : Mare
घोड़ा : घोड़ी

QID : 202 - In the following question, select the related word from the given alternatives.

Mason : Plumb line :: ? : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

राजमिस्त्री : साहुल सूत्र :: ? : ?

Options:

- 1) Surgeon : Scalpel
शल्य चिकित्सक : क्षुरिका
- 2) Sculptor : Spade
मूर्तिकार : कुदाल
- 3) Blacksmith : Forcep
लोहार : चिमटा
- 4) Gardener : Saw
बागवान : आरा

Correct Answer: Surgeon : Scalpel
शल्य चिकित्सक : क्षुरिका

Candidate Answer: Surgeon : Scalpel
शल्य चिकित्सक : क्षुरिका

QID : 203 - In the following question, select the related letters from the given alternatives.

BKPG : DNRJ :: CMOG : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए।

BKPG : DNRJ :: CMOG : ?

Options:

- 1) DOQI
- 2) EPQJ
- 3) EQPJ
- 4) EQJP

Correct Answer: EPQJ

Candidate Answer: EPQJ

QID : 204 - In the following question, select the related letters from the given alternatives.

DHPQ : ZDLM :: SWIY : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए।

DHPQ : ZDLM :: SWIY : ?

Options:

1) OSEU

2) OSUE

3) OESU

4) OTDV

Correct Answer: OSEU

Candidate Answer: OSEU

QID : 205 - In the following question, select the related number from the given alternatives.

256 : 290 :: 961 : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।

256 : 290 :: 961 : ?

Options:

1) 1011

2) 1017

3) 1025

4) 1023

Correct Answer: 1025

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 206 - In the following question, select the related number from the given alternatives.

14 : 194 :: 16 : ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।

14 : 194 :: 16 : ?

Options:

1) 254

2) 256

3) 258

4) 260

Correct Answer: 254

Candidate Answer: 256

QID : 207 - In the following question, select the odd word from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए।

Options:

1) Farmer

किसान

2) Blacksmith

लोहार

3) Cobbler

मोची

4) Helper

सहायक

Correct Answer: Helper

सहायक

Candidate Answer: Helper

सहायक

QID : 208 - In the following question, select the odd word pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए।

Options:

1) Mumbai : President's House

मुम्बई : राष्ट्रपति भवन

2) Delhi : Parliament

दिल्ली : संसद

3) Nagpur : Centre Point

नागपुर : केन्द्रीय बिन्दु

4) Hyderabad : Charminar

हैदराबाद : चारमीनार

Correct Answer: Mumbai : President's House

मुम्बई : राष्ट्रपति भवन

Candidate Answer: Mumbai : President's House

मुम्बई : राष्ट्रपति भवन

QID : 209 - In the following question, select the odd letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।

Options:

- 1) AZ
- 2) MN
- 3) IS

4) GT

Correct Answer: IS

Candidate Answer: IS

QID : 210 - In the following question, select the odd letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।

Options:

- 1) LNPR
- 2) HJLN
- 3) SUVX

4) BDFH

Correct Answer: SUVX

Candidate Answer: SUVX

QID : 211 - In the following question, select the odd number pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

- 1) 8
- 2) 27
- 3) 49
- 4) 216

Correct Answer: 49

Candidate Answer: 49

QID : 212 - In the following question, select the odd number pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

- 1) 123 - 321
- 2) 456 - 654
- 3) 789 - 978
- 4) 678 - 876

Correct Answer: 789 - 978

Candidate Answer: 789 - 978

QID : 213 - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Clone
2. Climate
3. Clutter
4. Create
5. Clapped

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Clone
2. Climate
3. Clutter
4. Create
5. Clapped

Options:

- 1) 52143
- 2) 51234
- 3) 52134
- 4) 53124

Correct Answer: 52134

Candidate Answer: 52134

YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 214 - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Lasted
2. Loop
3. Lake
4. Litter
5. Listed

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Lasted
2. Loop
3. Lake
4. Litter
5. Listed

Options:

1) 31542

2) 31254

3) 31245

4) 31452

Correct Answer: 31542

Candidate Answer: 31452

QID : 215 - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

B, D, H, N, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

B, D, H, N, ?

Options:

1) T

2) U

3) V

4) W

Correct Answer: V

Candidate Answer: V

QID : 216 - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

AAA, BCD, CEG, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

AAA, BCD, CEG, ?

Options:

1) DGI

2) DFI

3) DGJ

4) DJG

Correct Answer: DGJ

Candidate Answer: DGJ

QID : 217 - In the following question, select the missing number from the given series.

127, 63, 31, 15, 7, ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

127, 63, 31, 15, 7, ?

Options:

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

Correct Answer: 3

Candidate Answer: 3

QID : 218 - In the following question, select the missing number from the given series.

2, 22, 198, 1386, ?

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

2, 22, 198, 1386, ?

Options:

1) 2770

2) 3990

3) 6930

4) 9702

Correct Answer: 6930

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 219 - A is taller than B. C is taller than D, but shorter than E. B is shorter than D and D is taller than A. Who is the tallest?

A, B से लम्बा है। C, D से लम्बा है परंतु E से छोटा है। B, D से छोटा है तथा D, A से लम्बा है। सबसे लम्बा कौन है?

Options:

1) E

2) C

3) B

4) D

Correct Answer: E

Candidate Answer: E

QID : 220 - If 'A + B' means 'A is father of B', 'A - B' means 'A is mother of B', 'A * B' means 'A is brother of B' and 'A % B' means 'A is sister of B', then how is Q related to S in 'P + Q * R - S'?

यदि 'A + B' का अर्थ 'A, B का पिता है', 'A - B' का अर्थ 'A, B की माता है', 'A * B' का अर्थ 'A, B का भाई है' तथा 'A % B' का अर्थ 'A, B की बहन है' हो, तो 'P + Q * R - S' में Q, S से किस प्रकार संबंधित है?

Options:

1) Husband

पति

2) Uncle

मामा

3) Brother

भाई

4) Father

पिता

Correct Answer: Uncle

मामा

Candidate Answer: Uncle

मामा

QID : 221 - P is shorter than Q but taller than T. R is the tallest and S is shorter than P but not the shortest. Who is second last in the descending order of height?

P, Q से छोटा है परंतु T से लम्बा है। R सबसे लम्बा है तथा S, P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊँचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है?

Options:

1) P

2) Q

3) S

4) T

Correct Answer: S

Candidate Answer: S

QID : 222 - In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word.

QUALIFICATION

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

QUALIFICATION

Options:

1) LIAR

2) FIAT

3) LION

4) FICTION

Correct Answer: LIAR

Candidate Answer: LIAR

QID : 223 - In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word.

POSSESSION

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

POSSESSION

Options:

1) SESSION

2) POSE

3) POISE

4) OBSESS

Correct Answer: OBSESS

Candidate Answer: OBSESS

QID : 224 - In a certain code language, "RANGE" is written as "FIQEW" and "ARAGE" is written as "FIDVF". How is "PRANK" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "RANGE" को "FIQEW" लिखा जाता है तथा "ARAGE" को "FIDVF" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "PRANK" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

Options:

1) MQEUV

2) LPDVU

3) UVDPL

4) VWEQM

Correct Answer: LPDVU

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 225 - In a certain code language, "HAUNTED" is written as "4013592" and "RINGED" is written as "763892". How is "HINGE" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "HAUNTED" को "4013592" लिखा जाता है तथा "RINGED" को "763892" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "HINGE" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

Options:

1) 36589

2) 57864

3) 40359

4) 46389

Correct Answer: 46389

Candidate Answer: 46389

QID : 226 - If "P" denotes "divided by", "R" denotes "added to", "S" denotes "subtracted from" and "Q" denotes "multiplied by", then

48 P 4 R 3 Q 4 S 6 Q 4 = ?

यदि "P" का अर्थ "भाग" है, "R" का अर्थ "जोड़" है, "S" का अर्थ "घटाव" है तथा "Q" का अर्थ "गुणा" है, तो

48 P 4 R 3 Q 4 S 6 Q 4 = ?

Options:

1) 20

2) 1

3) 6

4) 0

Correct Answer: 0

Candidate Answer: 0

QID : 227 - In the following question, correct the equation by interchanging two numbers.

$9 \times 3 - 8 \div 2 + 7 = 26$

निम्नलिखित प्रश्न में, किन्हीं दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए।

$9 \times 3 - 8 \div 2 + 7 = 26$

Options:

1) 3 and 7

3 तथा 7

2) 9 and 2

9 तथा 2

3) 7 and 9

7 तथा 9

4) 3 and 8

3 तथा 8

Correct Answer: 7 and 9

7 तथा 9

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 228 - If $9 \theta 11 \alpha 2 = 40$ and $13 \theta 12 \alpha 3 = 75$, then $40 \theta 41 \alpha 5 = ?$

यदि $9 \theta 11 \alpha 2 = 40$ तथा $13 \theta 12 \alpha 3 = 75$ हो, तो $40 \theta 41 \alpha 5 = ?$

Options:

1) 340

2) 365

3) 320

4) 405

Correct Answer: 405

Candidate Answer: 405

QID : 229 - If 8 a 48, 12 a 120 and 15 a 195, then what is the value of 'A' in 19 a A?

यदि 8 a 48, 12 a 120 तथा 15 a 195 हो, तो 19 a A में, 'A' का मान क्या होगा?

Options:

- 1) 323
- 2) 347
- 3) 360
- 4) 312

Correct Answer: 323

Candidate Answer: 312

QID : 230 -

In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark (?) from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए।

7	8	2
2	3	3
4	1	7
5	6	?

Options:

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

Correct Answer: 6

Candidate Answer: 6

QID : 231 -

In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark (?) from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए।

11	2	4	98
3	6	5	100
8	9	1	?

Options:

- 1) 72
- 2) 75
- 3) 88
- 4) 82

Correct Answer: 82

Candidate Answer: 82


YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 232 -

How many quadrilaterals are there in the given figure?

दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं?



Options:

- 1) 13
- 2) 15
- 3) 17
- 4) 19


Correct Answer: 17

Candidate Answer: 15

QID : 233 -

How many rectangles are there in the given figure?

दी गई आकृति में कितने आयत हैं?



Options:

- 1) 15
- 2) 17
- 3) 19
- 4) 23

Correct Answer: 15

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 234 - In each of the following question below are given some statements followed by some conclusions. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. All pens are cups.
- II. All glasses are cups.

Conclusions:

- I. Some pens are glass.
- II. Some glasses are cups.
- III. Some glasses are pens.

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष, दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं।

कथन:

- I. सभी पेन कप हैं।
- II. सभी ग्लास कप हैं।

निष्कर्ष:

- I. कुछ पेन ग्लास हैं।
- II. कुछ ग्लास कप हैं।
- III. कुछ ग्लास पेन हैं।

Options:

- 1) Only conclusion (I) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (I) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं
- 2) Only conclusion (I) follows
केवल निष्कर्ष (I) सही है
- 3) Only conclusion (II) follows
केवल निष्कर्ष (II) सही है
- 4) No conclusion follows
कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है

Correct Answer: Only conclusion (II) follows
केवल निष्कर्ष (II) सही है

Candidate Answer: Only conclusion (I) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (I) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं

QID : 235 - In each of the following question below are given some statements followed by some conclusions. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. No pens are pencils.
- II. No eraser is cup.
- III. All pencils are erasers.

Conclusions:

- I. Some pens are not erasers.
- II. Some erasers are not pens.
- III. No pencil is cup.
- IV. Some erasers are cups.

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष, दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं।

कथन:

- I. कोई पेन पेंसिलें नहीं हैं।
- II. कोई रबर कप नहीं हैं।
- III. सभी पेंसिलें रबर हैं।

निष्कर्ष:

- I. कुछ पेन रबर नहीं हैं।
- II. कुछ रबर पेन नहीं हैं।
- III. कोई पेंसिल कप नहीं है।
- IV. कुछ रबर कप हैं।

Options:

- 1) Only conclusion (I) and (IV) follow
केवल निष्कर्ष (I) तथा निष्कर्ष (IV) सही हैं
- 2) Only conclusion (I) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (I) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं
- 3) Only conclusion (II) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (II) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं
- 4) Only conclusion (II) and (IV) follow
केवल निष्कर्ष (II) तथा निष्कर्ष (IV) सही हैं


Correct Answer: Only conclusion (II) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (II) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं

Candidate Answer: Only conclusion (I) and (III) follow
केवल निष्कर्ष (I) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं

QID : 236 -


From the given options, which answer figure can be formed by folding the figure given in the question?

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है?



Options:


1)



2)



3)



4)



Correct Answer:





Candidate Answer:



QID : 237 -

Two position of a cube are shown below. What will come opposite to face containing '&'?

नीचे एक घन की दो अवस्थाएँ दर्शायी गयी हैं। '&' युक्त फलक के विपरित क्या आयेगा?



Options:

1) ^

2) %

3) \$

4) None of these
इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: ^


Candidate Answer: \$

YouTube CHANNEL

QID : 238 -

In the given figure, which number represents plastic tables which are wooden?

दी गई आकृति में, कौन सा अंक ऐसी प्लास्टिक मेज जो लकड़ी हैं, को दर्शाता है?



Options:

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 4


Correct Answer: 4

Candidate Answer: 4

QID : 239 -

In the given figure, which number represents brown animals which do not have tail?

दी गई आकृति में, कौन सा अंक ऐसे भूरे जानवर जिनकी पूँछ नहीं है, को दर्शाता है?



Options:

- 1) 7
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

Correct Answer: 5

Candidate Answer: 5


YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 240 -

In the given figure, which number represents the paint brush which is not hair?

दी गई आकृति में, कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं हैं, को दर्शाता है?



Options:

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 2

Correct Answer: 2

Candidate Answer: 2

QID : 241 -

Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?



Options:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Correct Answer:



Candidate Answer:







QID : 242 -

Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?



Options:



Correct Answer:



Candidate Answer:




YouTube CHANNEL

QID : 243 -

From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस में प्रश्न आकृति निहित है।



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 244 -

From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस में प्रश्न आकृति निहित है।



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 245 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened?

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?



YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 246 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened?

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?




YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Options:

1)




2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 247 -

If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?



YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 248 -

If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?



YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 249 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of **Matrix-I** are numbered from 0 to 4 and that of **Matrix-II** are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'L' can be represented by 11, 42, etc., and 'A' can be represented by 65, 96, etc. Similarly, you have to identify the set for the word "FISH".

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। **आव्यूह-I** के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और **आव्यूह-II** की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'L' को 11, 42, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'A' को 65, 96, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द "FISH" के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix-I
आव्यूह-I

	0	1	2	3	4
0	P	I	Y	F	L
1	F	L	P	I	Y
2	I	Y	F	L	P
3	L	P	I	Y	F
4	Y	F	L	P	I

Matrix-II
आव्यूह-II

	5	6	7	8	9
5	H	S	E	A	P
6	A	P	H	S	E
7	S	E	A	P	H
8	P	H	S	E	A
9	E	A	P	H	S

Options:

1) 66, 00, 68, 14, 76

2) 95, 44, 87, 33, 88

3) 89, 32, 75, 42, 69

4) 57, 13, 99, 20, 58

Correct Answer: [No Correct Answer]

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 250 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of **Matrix-I** are numbered from 0 to 4 and that of **Matrix-II** are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'M' can be represented by 22, 44, etc., and 'T' can be represented by 67, 96, etc. Similarly, you have to identify the set for the word "CROPS".

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह-II की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'M' को 22, 44, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'T' को 67, 96, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द "CROPS" के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix-I

आव्यूह-I

	0	1	2	3	4
0	M	C	O	S	N
1	C	N	S	M	O
2	N	O	M	C	S
3	S	M	N	O	C
4	O	S	C	N	M

Matrix-II

आव्यूह-II

	5	6	7	8	9
5	T	U	Q	P	R
6	P	R	T	U	Q
7	U	Q	P	R	T
8	Q	P	R	T	U
9	R	T	U	Q	P

Options:

1) 13, 68, 10, 67, 40

2) 42, 89, 41, 85, 31

3) 34, 75, 33, 79, 20

4) 13, 56, 24, 95, 14

Correct Answer: [No Correct Answer]

Candidate Answer: 13, 56, 24, 95, 14

QID : 251 - In Indian economy, the sectors are divided into Private and Public on what basis?

भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है?

Options:

1) Ownership of enterprises
उपक्रमों पर स्वामित्व

2) Usage of raw materials
कच्चे माल का प्रयोग

3) Nature of economic activities
आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति

4) Employment policies
रोज़गार नीतियाँ

Correct Answer: Ownership of enterprises
उपक्रमों पर स्वामित्व

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 252 - Which method is used to measure agricultural income in India?

भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है?

Options:

- 1) Expenditure method
व्यय पद्धति
- 2) Output method
उत्पादन पद्धति
- 3) Commodity flow method
वस्तु प्रवाह पद्धति
- 4) Input method
निवेश पद्धति

Correct Answer: Output method
उत्पादन पद्धति

Candidate Answer: Output method
उत्पादन पद्धति

QID : 253 - Who estimated the National Income in India for the first time?

भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया?

Options:

- 1) Prof. P. C. Mahalanobis
प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस
- 2) Dr. V. K. R. V. Rao
डॉ. वी. के. आर. वी. राव
- 3) Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी
- 4) M. G. Ranade
एम. जी. रानाडे

Correct Answer: Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी

Candidate Answer: Dadabhai Naoroji
दादाभाई नौरोजी

QID : 254 - GDP – indirect taxes + subsidies = _____

जी. डी. पी. – अप्रत्यक्ष कर + अनुदान = _____

Options:

- 1) NNP at factor cost
उत्पादन लागत पर एन. एन. पी.
- 2) GDP at factor cost
उत्पादन लागत पर जी. डी. पी.
- 3) GNP
जी. एन. पी.
- 4) Personal Income
व्यक्तिगत आय

Correct Answer: GDP at factor cost
उत्पादन लागत पर जी. डी. पी.

Candidate Answer: GNP
जी. एन. पी.

QID : 255 - Establishment of Chittaranjan Locomotive took place during which Five Year Plan?

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी?

Options:

- 1) Second
दूसरी
- 2) Third
तीसरी
- 3) Fourth
चौथी
- 4) First
पहली

Correct Answer: First
पहली

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 256 - What is the meaning of 'Laissez Faire Policy'?

'अहस्तक्षेप नीति' का अर्थ क्या है?

Options:

- 1) Fair legislation
निष्पक्ष विधि
- 2) Control over trade
व्यापार पर नियंत्रण
- 3) Withdrawal of 'some restrictions'
'कुछ प्रतिबंधों' का हट जाना
- 4) None of these
इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Withdrawal of 'some restrictions'
'कुछ प्रतिबंधों' का हट जाना

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 257 - Who is the head of Municipal Corporation?

नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है?

Options:

- 1) Prime Minister
प्रधानमंत्री
- 2) Sarpanch
सरपंच
- 3) Governor
राज्यपाल
- 4) Mayor
महापौर

Correct Answer: Mayor
महापौर

Candidate Answer: Mayor
महापौर

QID : 258 - Which form of government believes in giving equal rights and opportunities for women and men?

कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है?

Options:

- 1) Feminist
नारीवादी
- 2) Secularist
धर्म निरपेक्षतावादी
- 3) Castiest
जातिवादी
- 4) Communalist
साम्प्रदायिक

Correct Answer: Feminist
नारीवादी

Candidate Answer: Secularist
धर्म निरपेक्षतावादी

QID : 259 - What is the maximum period for which the vice president can act as the President in case of vacancy in the the president's office?

राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उप राष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है?

Options:

- 1) 3 months
3 महीने
- 2) 6 months
6 महीने
- 3) 1 year
1 वर्ष
- 4) 2 years
2 वर्ष

Correct Answer: 6 months
6 महीने

Candidate Answer: 6 months
6 महीने

QID : 260 - Currently, how many languages are recognized by Indian Constitution?

वर्तमान में, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?

Options:

- 1) Fourteen
चौदह
- 2) Fifteen
पन्द्रह
- 3) Sixteen
सोलह
- 4) Twenty-two
बाईस

Correct Answer: Twenty-two
बाईस

Candidate Answer: Twenty-two
बाईस

QID : 261 - Which among the following is not appointed by the President of India?

निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है?

Options:

- 1) Vice-President of India
भारत के उपराष्ट्रपति
- 2) Judge of Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- 3) Attorney General of India
भारत के महान्यायवादी
- 4) Chief Justice of India
भारत के मुख्य न्यायाधीश

Correct Answer: Vice-President of India
भारत के उपराष्ट्रपति

Candidate Answer: Vice-President of India
भारत के उपराष्ट्रपति

QID : 262 - Which of the following article describes India also as Bharat?

निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इण्डिया को भारत भी कहा गया है?

Options:

- 1) Article 1
अनुच्छेद 1
- 2) Article 2
अनुच्छेद 2
- 3) Article 3
अनुच्छेद 3
- 4) Article 4
अनुच्छेद 4

Correct Answer: Article 1
अनुच्छेद 1

Candidate Answer: Article 1
अनुच्छेद 1

QID : 263 - Which of the following writ is issued by a higher court to a lower court?

निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है?

Options:

- 1) Habeas Corpus
बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- 2) Quo Warranto
अधिकार पृच्छा
- 3) Prohibition
प्रतिषेध
- 4) None of these
इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Prohibition
प्रतिषेध

Candidate Answer: Quo Warranto
अधिकार पृच्छा

QID : 264 - 'The Loyal Muhammadans of India' was a newspaper by which of the following?

'द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया' निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था?

Options:

- 1) Mohammad Ali Jinnah
मोहम्मद अली जिन्नाह
- 2) Ashfaqulla Khan
अशफाकुल्लाह खॉ
- 3) Shaukat Ali
शौकत अली
- 4) Sayyed Ahmed Khan
सैय्यद अहमद खान

Correct Answer: Sayyed Ahmed Khan
सैय्यद अहमद खान

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 265 - Who among of the following was the founder of society called 'Abhinav Bharat'?

'अभिनव भारत' नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?

Options:

- 1) Lala Lajpat Rai
लाला लाजपत राय
- 2) Bal Gangadhar Tilak
बाल गंगाधर तिलक
- 3) Vinayak Damodar Savarkar
विनायक दामोदर सावरकर
- 4) Bipin Chandra Pal
बिपिन चंद्र पाल

Correct Answer: Vinayak Damodar Savarkar
विनायक दामोदर सावरकर

Candidate Answer: Vinayak Damodar Savarkar
विनायक दामोदर सावरकर

QID : 266 - First battle of Panipat was fought between which two armies?

पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गयी थी?

Options:

- 1) Babur and Lodi Empire
बाबर तथा लोदी साम्राज्य
- 2) Britishers and Babur
ब्रिटीश तथा बाबर
- 3) Akbar and Hemu
अकबर तथा हेमू
- 4) Akbar and Rana of Mewar
अकबर तथा मेवाड़ के राणा

Correct Answer: Babur and Lodi Empire
बाबर तथा लोदी साम्राज्य

Candidate Answer: Babur and Lodi Empire
बाबर तथा लोदी साम्राज्य

QID : 267 - Arrange the following historical events in the chronological order of their occurrence.

- I. Champaran Satyagraha
- II. Partition of Bengal
- III. Jallianwala Bagh Massacre

निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें।

- I. चंपारण सत्याग्रह
- II. बंगाल विभाजन
- III. जलियांवाला बाग हत्याकांड

Options:

- 1) I, II, III
- 2) II, III, I
- 3) II, I, III
- 4) I, III, II

Correct Answer: II, I, III

Candidate Answer: II, I, III

QID : 268 - Which of the following civilization is famous for its city/town planning?

निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है?

Options:

- 1) Indus Valley Civilization
सिंधु घाटी सभ्यता
- 2) Mesopotamian Civilization
मेसोपोटामियाई सभ्यता
- 3) Persian Civilization
फारस सभ्यता
- 4) Egyptian Civilization
मिस्र सभ्यता

Correct Answer: Indus Valley Civilization

सिंधु घाटी सभ्यता

Candidate Answer: Indus Valley Civilization

सिंधु घाटी सभ्यता

QID : 269 - Which of the following is suitable for well irrigation?

निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है?

Options:

- 1) Rock surface of Peninsula
प्रायद्वीप की पथरीली सतह
- 2) Dry surface/tracts of Rajasthan
राजस्थान की सूखी सतह/भूभाग
- 3) Costal Plains
तटीय मैदानी क्षेत्र
- 4) Deltaic region of Mahandi River
महानदी का डेल्टीय क्षेत्र

Correct Answer: Deltaic region of Mahandi River

महानदी का डेल्टीय क्षेत्र

Candidate Answer: Dry surface/tracts of Rajasthan

राजस्थान की सूखी सतह/भूभाग

QID : 270 - Rotational axis of which of the following planet is highly tilted?

निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है?

Options:

- 1) Earth
पृथ्वी
- 2) Uranus
अरुण
- 3) Neptune
वरुण
- 4) Jupiter
बृहस्पति

Correct Answer: Uranus

अरुण

Candidate Answer: Neptune

वरुण

QID : 271 - Near coastal areas, temperature on land in day time gets reduced due to ____.

तटीय क्षेत्रों के निकट ____ के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है।

Options:

- 1) Land breeze
थल समीर
- 2) Sea breeze
समुद्र समीर
- 3) Both land and sea breeze
थल तथा समुद्र समीर दोनों
- 4) Sparsely populated coasts
तटों पर कम आबादी

Correct Answer: Sea breeze
समुद्र समीर

Candidate Answer: Sea breeze
समुद्र समीर

QID : 272 - Which of the following city is located on the banks of river Potomac?

निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है?

Options:

- 1) Berlin
बर्लिन
- 2) Islamabad
इस्लामाबाद
- 3) Madrid
मैड्रिड
- 4) Washington D.C.
वाशिंगटन डी. सी.

Correct Answer: Washington D.C.
वाशिंगटन डी. सी.

Candidate Answer: Madrid
मैड्रिड

QID : 273 - How much is the difference of time between any two consecutive longitudes?

किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है?

Options:

- 1) 10 minutes
10 मिनट
- 2) 14 minutes
14 मिनट
- 3) 4 minutes
4 मिनट
- 4) 30 minutes
30 मिनट

Correct Answer: 4 minutes
4 मिनट

Candidate Answer: 4 minutes
4 मिनट

QID : 274 - Which of the following is considered as physical basis of life?

निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है?

Options:

- 1) Cell wall
कोशिका भित्ति
- 2) Cell membrane
कोशिका झिल्ली
- 3) Mitochondria
सूत्रकणिका
- 4) Protoplasm
जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज़्म)

Correct Answer: Protoplasm
जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज़्म)

Candidate Answer: Mitochondria
सूत्रकणिका

QID : 275 - Who of the following is known as 'Father of Zoology'?

निम्नलिखित में से किसे 'जंतु विज्ञान का जनक' माना जाता है?

Options:

- 1) Darwin
डार्विन
- 2) Aristotle
अरस्तु
- 3) Heckle
हेकेल
- 4) Edward Jenner
एडवर्ड जेनर

Correct Answer: Aristotle
अरस्तु

Candidate Answer: Heckle
हेकेल

QID : 276 - Which of the following branch of biology is related with study of heredity and variations?

निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है?

YouTube CHANNEL

EVEREXAM

Options:

- 1) Microbiology
सूक्ष्मजीव-विज्ञान
- 2) Immunology
प्रतिरक्षा विज्ञान
- 3) Genetics
आनुवंशिकी
- 4) Entomology
कीटविज्ञान

Correct Answer: Genetics
आनुवंशिकी

Candidate Answer: Genetics
आनुवंशिकी

QID : 277 - Which of the following is NOT a vestigial organ in human body?

निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है?

Options:

- 1) Thymus Gland
थाइमस ग्रंथि
- 2) Wisdom teeth
अकल की दाढ़
- 3) Pharynx
ग्रसनी (फैरिक्स)
- 4) Thyroid gland
गलग्रंथि

Correct Answer: Thyroid gland
गलग्रंथि

Candidate Answer: Wisdom teeth
अकल की दाढ़

QID : 278 - Bile is produced by which of the following gland?

निम्न में से किस ग्रन्थि में पित्त उत्पादित होता है?

Options:

- 1) Liver
यकृत
- 2) Kidney
गुर्दा
- 3) Gall bladder
पित्ताशय
- 4) Spleen
तिल्ली

Correct Answer: Liver
यकृत

Candidate Answer: Gall bladder
पित्ताशय

QID : 279 - Which of the following cells secrete insulin?

निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इन्सुलिन का रिसाव होता है?

Options:

- 1) α cells
 α कोशिकायें
- 2) β cells
 β कोशिकायें
- 3) δ cells
 δ कोशिकायें
- 4) Nerve cells
तंत्रिका कोशिकायें

Correct Answer: β cells
 β कोशिकायें

Candidate Answer: β cells
 β कोशिकायें

QID : 280 - Mass of an object is a _____.

एक वस्तु का द्रव्यमान एक _____ है।

Options:

- 1) Physical Quantity
भौतिक मात्रा
- 2) Fundamental Quantity
मौलिक मात्रा
- 3) Scalar Quantity
अदिश मात्रा
- 4) All options are correct
सभी विकल्प सही हैं।

Correct Answer: All options are correct
सभी विकल्प सही हैं।

Candidate Answer: Scalar Quantity
अदिश मात्रा

QID : 281 - When a bus starts suddenly, then passengers in the bus tend to fall backwards. This event is an example of ____.

जब एक बस अचानक से चलती है, तब बस में बैठे यात्री पीछे कि ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना _____ का एक उदाहरण है।

Options:

- 1) Inertia of rest
स्थिरता का जड़त्व
- 2) Inertia of motion
गति का जड़त्व
- 3) Inertia of direction
दिशा का जड़त्व
- 4) None of these
इनमें से कोई नहीं

Correct Answer: Inertia of rest
स्थिरता का जड़त्व

Candidate Answer: Inertia of rest
स्थिरता का जड़त्व

QID : 282 - Momentum of an object depends on which factors?

- I. Mass of the object
- II. Speed of the object
- III. Volume of the object

वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है?

- I. वस्तु का द्रव्यमान
- II. वस्तु की गति
- III. वस्तु का आयतन

Options:

- 1) I only
केवल I
- 2) I and II only
केवल I तथा II
- 3) I and III only
केवल I तथा III
- 4) I, II and III
I, II तथा III

Correct Answer: I and II only
केवल I तथा II

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 283 - What is the approximate height of any geostationary satellite from earth's surface (in km)?

किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊँचाई पृथ्वी की सतह से लगभग (कि.मी. में) कितनी होती है?

Options:

- 1) 36000
- 2) 45000
- 3) 48000
- 4) 30000

Correct Answer: 36000

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 284 - Which of the following is used to enter data and instructions into a computer?

निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कम्प्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है?

Options:

- 1) Software
सॉफ्टवेयर
- 2) Output device
आउटपुट डिवाइस
- 3) Malware
मैलवेयर
- 4) Input device
इनपुट डिवाइस

Correct Answer: Input device
इनपुट डिवाइस

Candidate Answer: Input device
इनपुट डिवाइस

QID : 285 - Which among the following has largest storing space?

निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है?

Options:

- 1) Giga byte
गीगाबाइट
- 2) Mega byte
मेगाबाइट
- 3) Tera byte
टेराबाइट
- 4) Kilo byte
किलोबाइट

Correct Answer: Tera byte
टेराबाइट

Candidate Answer: Tera byte
टेराबाइट

QID : 286 - Which among the following is a pure element?

निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है?

Options:

- 1) Glass
काँच
- 2) Cement
सीमेंट
- 3) Sodium
सोडियम
- 4) Steel
इस्पात

Correct Answer: Sodium
सोडियम

Candidate Answer: Sodium
सोडियम

QID : 287 - Sodium bicarbonate is chemical name of which of the following?

सोडियम बाईकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है?

Options:

- 1) Baking Soda
बेकिंग सोडा
- 2) Washing Powder
कपड़े धोने का पाउडर
- 3) Plaster
प्लास्टर
- 4) Fly-Ash
उड़ान राख

Correct Answer: Baking Soda
बेकिंग सोडा

Candidate Answer: Baking Soda
बेकिंग सोडा

QID : 288 - How is atomic mass number determined?

एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है?

Options:

- 1) By total number of protons
कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा
- 2) By total number of neutrons
कुल न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा
- 3) By adding number of protons and neutrons
कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर
- 4) By total number of electrons
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा

Correct Answer: By adding number of protons and neutrons
कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर

Candidate Answer: By adding number of protons and neutrons
कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर

QID : 289 - Which of the following reaction is the main cause of energy radiated from Sun?

निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है?

Options:

- 1) Nuclear fission
नाभिकीय विखंडन
- 2) Nuclear fusion
नाभिकीय विलय
- 3) Chemical reaction
रासायनिक अभिक्रिया
- 4) Diffusion reaction
विसरण अभिक्रिया

Correct Answer: Nuclear fusion
नाभिकीय विलय

Candidate Answer: Nuclear fission
नाभिकीय विखंडन

QID : 290 - With which of the following is 'Van Mahotsav' associated?

'वन महोत्सव' निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

Options:

- 1) Cutting of trees
वृक्षों को काटना
- 2) Planting of trees
वृक्षारोपण
- 3) Genetic modification of trees
वृक्षों का आनुवांशिक परिवर्तन
- 4) Increase in crops
खेती में बढ़ोतरी

Correct Answer: Planting of trees
वृक्षारोपण

Candidate Answer: Planting of trees
वृक्षारोपण

QID : 291 - Plants which grow in salty water near sea shore are called as _____.

समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को _____ कहते हैं।

Options:

1) Halophytes

लवणमृदोद्भिद्

2) Xerophytes

मरूद्भिद्

3) Heliophytes

आतपोद्भिद्

4) Saprophytes

मृतजीवी

Correct Answer: Halophytes

लवणमृदोद्भिद्

Candidate Answer: Halophytes

लवणमृदोद्भिद्

QID : 292 - How many ecological hotspots are present in India?

भारत में कितने परिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं?

Options:

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

Correct Answer: 4

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 293 - The Union Ministry of Human Resource Development has launched a nationwide 'Students for Soldiers: Vidya Veerta Abhiyan' to display portraits of _____ decorated soldiers in education institutes.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों में _____ से विभूषित सैनिकों की छायाचित्रों के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रव्यापी 'स्टूडेंट्स फॉर सोल्जर्स: विद्या वीरता अभियान' शुरू किया है।

Options:

1) Ashok Chakra

अशोक चक्र

2) Mahaveer Chakra

महावीर चक्र

3) Paramveer Chakra

परमवीर चक्र

4) Veer Chakra

वीर चक्र

Correct Answer: Paramveer Chakra

परमवीर चक्र

Candidate Answer: Paramveer Chakra

परमवीर चक्र

QID : 294 - Who amongst the following gave the 'Periodic Law'?

'आवर्ती नियम' निम्नलिखित में से किसने दिया?

Options:

1) Carlton McGee

कार्लटन मैकगी

2) Emil Fischer

इमिल फिशर

3) Charles Darwin

चार्ल्स डार्विन

4) Dmitri Mendeleev

डेमित्री मेंडलीफ

Correct Answer: Dmitri Mendeleev

डेमित्री मेंडलीफ

Candidate Answer: Dmitri Mendeleev

डेमित्री मेंडलीफ

YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 295 -

Match the following.

निम्नलिखित का मिलान कीजिए।

Trophy / ट्रॉफी

1. Ranji Trophy
रणजी ट्रॉफी
2. Santosh Trophy
संतोष ट्रॉफी
3. Agha Khan Cup
आगा खान कप

Sport / खेल

- a. Football
फुटबॉल
- b. Cricket
क्रिकेट
- c. Hockey
हॉकी

Options:

1) 1 - a, 2 - b, 3 - c

2) 1 - b, 2 - a, 3 - c

3) 1 - a, 2 - c, 3 - b

4) 1 - b, 2 - c, 3 - a

Correct Answer: 1 - b, 2 - a, 3 - c

Candidate Answer: 1 - b, 2 - a, 3 - c

QID : 296 - Which of the following pair is INCORRECT?

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?

Options:

1) Ghoomar - Rajasthan

घूमर - राजस्थान

2) Bihu - Bihar

बिहू - बिहार

3) Bhangra - Punjab

भांगड़ा - पंजाब

4) Lavani - Maharashtra

लावणी - महाराष्ट्र

Correct Answer: Bihu - Bihar

बिहू - बिहार

Candidate Answer: Bihu - Bihar

बिहू - बिहार

QID : 297 - In the 64th National Awards, which Hindi film has been awarded the Best Hindi Film for the year 2016?

64 वीं राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में, किस हिन्दी फ़िल्म को 2016 के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया है?

Options:

1) Neerja

नीरजा

2) Udda Punjab

उडता पंजाब

3) Dangal

दंगल

4) Sultan

सुल्तान

Correct Answer: Neerja

नीरजा

Candidate Answer: Neerja

नीरजा

QID : 298 - The book 'Hope in a challenged Democracy' is authored by _____.

'होप इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी' _____ के द्वारा लिखी गई है।

Options:

1) M. Veerappa Moily

एम. वीरप्पा मोइली

2) Sunita Narayan

सुनिता नारायण

3) Dr. Ashwini Kumar

डॉ. अश्विनी कुमार

4) Anuradha Roy

अनुराधा रॉय

Correct Answer: Dr. Ashwini Kumar

डॉ. अश्विनी कुमार

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 299 - With which country India has signed a bilateral contract for development and operations of Chabahar port?

किस देश के साथ भारत ने चाबाहर बंदरगाह के विकास तथा संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है?

Options:

- 1) Israel
इज़राइल
- 2) Iran
ईरान
- 3) Tehran
तेहरान
- 4) Turkey
तुर्की

Correct Answer: Iran
ईरान

Candidate Answer: Iran
ईरान

QID : 300 - 'Operation Pawan' was a peace-keeping operation by India in its which neighbouring country?

'ऑपरेशन पवन' भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था?

Options:

- 1) Myanmar
म्यांमार
- 2) Bangladesh
बंगलादेश
- 3) Nepal
नेपाल
- 4) Sri Lanka
श्रीलंका

Correct Answer: Sri Lanka
श्रीलंका

Candidate Answer: Myanmar
म्यांमार

YouTube CHANNEL

EVEREXAM